



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 375]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1982/अग्रहायण 19, 1904

No. 375]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1982/AGRAHAYANA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1982

सं० का० नि० 750(अ) :--केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य
निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा
6 और धारा 7 के साथ एखिन धारा 3-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, कोयला खान कुटुम्ब पेशन स्कीम, 1971 का और मर्यादित
करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

- (1) इस स्कीम का संशोधन नाम कोयला खान कुटुम्ब पेशन (संशोधन)
स्कीम, 1982 है।
- (2) यह 1 अप्रैल, 1982 में प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- कोयला खान कुटुम्ब पेशन स्कीम, 1971 में,--
- (1) पैरा 3 में, उपपैरा (ख) के नीचे के इपरे परन्तुक में, शब्द "58"
के स्थान पर शब्द "59" रखे जाएंगे।
- (2) पैरा 12 में, --

(क) उपपैरा (1) में, "दो वर्षों में अन्वृत" शब्दों के स्थान पर
"एक वर्ष में अन्वृत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपपैरा (1) के नीचे की शारणी में "40 रु०" शब्द
और शब्दों के स्थान पर "60 रु०" शब्द और शब्द रखे
जाएंगे ;

- (3) पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तर्स्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :--

"12-क-पेंशनगरी को प्रत्युत्तर राहत--केन्द्रीय सरकार, कोयला
खान कुटुम्ब पेशन (संशोधन) स्कीम, 1982 के
प्रवृत्त होने की तारीख हा और उर्वर, मातृका कुटुम्ब
पेशन प्राप्त करने वाले पेंशनगरी का, पूर्ण दरो पर और बेसी
रोशि में जो नमन-नमन पर अन्वृत हो जाए, प्रत्युत्तर
परिवर्तन प्रत्युत्तर कर महेगा।"

- (4) पैरा 15 के उपपैरा (1) में "आ वर्षों" शब्दों के स्थान पर "एक
वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;
- (5) पैरा 16 के उपपैरा (1) में, जहाँ कहा "दो वर्षों में अन्वृत" तथा
"1000 रु०" शब्द और शब्दों के स्थान पर क्रमशः
"एक वर्ष में अन्वृत" तथा "2000 रु०" शब्द और शब्द रखे
जाएंगे ;
- (6) पैरा 17 के उपपैरा (1) में, "दो वर्षों में अन्वृत" शब्दों के स्थान
पर, "एक वर्ष में अन्वृत" शब्द रखे जाएंगे ;
- (7) पैरा 18 में--

(क) उपपैरा (1) के परन्तुक में "दो वर्षों" शब्दों के स्थान
पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपपैरा (2) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे,

(8) पैरा 19 में,—

(क) "40 रुपए" शब्दों और शब्द के स्थान पर "60 रुपए" शब्द और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपपैरा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक धन-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन, किसी भी दशा में, 60 रुपए से कम नहीं होगी।"

टिप्पण: (i) मूल स्कीम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3(1) में सांकां निं सं० 399, तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

(ii) पैरा 19क, सां कां निं सं० 423 तारीख 30 अप्रैल, 1973 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(iii) पैरा 21 का सां कां निं सं० 1042, तारीख 22 सितम्बर, 1973 द्वारा संशोधन किया गया।

(iv) पैरा 8 सां कां निं सं० 1223, तारीख 10 नवम्बर, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(v) सां कां निं सं० 529 तारीख 19 जनवरी, 1974 द्वारा पैरा 3, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 32 तथा अनुसूची-I का संशोधन किया गया और पैरा 19ख और 19ग अन्तःस्थापित किए गए।

(vi) पैरा 7 और 9 का सां कां निं सं० 400, तारीख 19 अप्रैल, 1971 द्वारा संशोधन किया गया।

(vii) पैरा 19क के उपपैरा (1) का परन्तुक सांकां निं सं० 2631, तारीख 1 नवम्बर, 1975 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(viii) अनुसूची II का सां कां निं सं० 465 तारीख 27 मार्च, 1976 द्वारा संशोधन किया गया।

(ix) पैरा 13 का सांकां निं सं० 758, तारीख 19 जुलाई, 1980 द्वारा संशोधन किया गया।

(x) पैरा 5 का सां कां निं सं० 66, तारीख 17 जनवरी, 1981 द्वारा संशोधन किया गया।

स्पष्टीकरण अतिरिक्त

कोयला खान कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन निम्नलिखित, प्रसुविधाओं को और उदार बनाने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ है, और इस प्रयोजन के लिए कुटुम्ब पेंशन निधि का बीमांकिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

2. बीमांकिक मूल्यांकन के पूरा होने तक यह विनिश्चय किया गया है कि, 1 अप्रैल, 1982 से स्कीम में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे:—

(i) विभिन्न प्रसुविधाओं का हकदार बनाने के लिए अभिव्यक्ति सदस्यता की न्यूनतम अवधि के अनुबन्ध को घटा कर दो वर्ष से एक वर्ष करता;

(ii) न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन की दशा में, प्रविष्टि आयु के कारण को लागू नहीं किया जाएगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन किसी भी दशा में 60 रुपए प्रति मास से कम न हो और यह प्रसुविधा सभी पेंशनरों को उपलब्ध करवाना, इसके अंतर्गत वे पेंशनर भी हैं, जो 1-4-1982 को या इसके पश्चात् मासिक कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) स्कीम के पैरा 16 के अधीन देय जीवन बीमा अनुविध्या 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करना;

(iv) केन्द्रीय सरकार का, मासिक कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को समय-समय पर अनुपूर्वक गृह अनुदान करने में समर्थ बनाने के लिए स्कीम को एक समर्थकारी उपबन्ध नियमित करना।

3. कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 6 अनुबंध करती है कि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम में यह उपबंध किया जा सकता है कि उनके कोई उपबंध ऐसी तारीख से जो स्कीम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, भविष्यवर्ती रूप से वा भूतवर्ती रूप से प्रयुक्त होंगे।

4. यह भी पुष्टि की जाती है कि इससे किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० 8(7)/80-प्रशा० I-(सं० नि०)]

सं० ता० लक्ष्मी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 1982

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by section 3E read with sections 6 and 7 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1958), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Coal Mines Family Pension (Amendment) Scheme, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the first day of April, 1982.

2. In the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971,—

(1) in paragraph 3, in the second proviso under sub-paragraph (b), for the figures "58", the figures "59" shall be substituted;

(2) in paragraph 12,—

(a) in sub-paragraph (1) for the words "not less than two years", the words "not less than one year" shall be substituted;

(b) in the Table below sub-paragraph (1), for the words and figures "Rs. 40", the words and figures "Rs. 60" shall be substituted;

(3) after paragraph 12, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"12A. Supplementary relief to pensioners.—On and from the date of coming into force of the Coal Mines Family Pension (Amendment) Scheme, 1982, the Central Government may grant to the pensioners in receipt of the monthly family pension, supplementary additions at such rates and in such manner as may be notified from time to time";

(4) in paragraph 15, in sub-paragraph (1), for the words "two years", the words "one year" shall be substituted;

(5) in paragraph 16, in sub-paragraph (1), for the words and figures "not less than two years" and "Rs. 1,000/-" wherever they occur, the words and figures "not less than one year" and "Rs. 2,000/-" shall, respectively, be substituted;

(6) in paragraph 17, in sub-paragraph (1), for the words, "not less than two years", the words "not less than one year" shall be substituted;

(7) in paragraph 18,—

(a) in the proviso to sub-paragraph (1), for the words and figures "2 years" the words "one year" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (2), for the words "before the completion of two years", the words "before the completion of one year's" shall be substituted;

(8) in sub-paragraph 19,—

(a) in sub-paragraph (1), for the words and figures "Rs. 40", the words and figures "Rs. 60" shall be substituted;

(b) after sub-paragraph (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the minimum family pension shall not, in any case, be less than Rs. 60".

Note : (i) Principal published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, section 3(i) vide GSR NO. 299, dated the 1st March, 1971.

(ii) Paragraph 19A was inserted vide GSR NO. 423, dated the 31st April, 1973.

(iii) Paragraph 21 was amended vide GSR NO. 1042, dated the 22nd September, 1973.

(iv) Paragraph 8 was substituted vide GSR NO. 1223, dated the 10th November, 1973.

(v) Paragraph 3, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 32 and Schedule I were amended and new paragraphs 19B and 19C were inserted vide GSR NO. 52, dated 19th January, 1974.

(vi) Paragraph 7 and 9 were amended vide GSR NO. 400, dated the 19th April, 1974.

(vii) Proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 19A inserted vide GSR No. 2631, dated the 1st November, 1975.

(viii) Schedule II was amended vide GSR NO. 465, dated the 27th March, 1976.

(ix) Paragraph 13 was amended vide GSR NO. 758, dated the 19th July, 1980.

(x) Paragraph 5 was amended vide GSR NO. 66, dated the 17th January, 1981.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The question of liberalisation of the existing benefits under the Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 is under consideration of the Central Government, and for this purpose, an actuarial valuation of the Family Pension Fund is in progress.

2. Pending completion of the actuarial valuation, it has been decided to make the following changes in the Scheme, with effect from the 1st April, 1981 :—

(i) To reduce the stipulation of the minimum period of contributory membership, for entitlement to the various benefits, from two years to one year;

(ii) To dispense with the application of the entry age factor in the case of minimum family pension, so as to ensure that the minimum family pension is not in any case less than Rs. 60/- per month, and to make this benefit available to all pensioners, including those in receipt of the monthly family pension on or after 1-4-1982;

(iii) To enhance the Life Insurance Benefit from Rs. 1,000/- to Rs. 2,000 payable under paragraph 16 of the Scheme.

(iv) To incorporate an enabling provision in the Scheme to empower the Central Government to grant to the pensioners, in receipt of the monthly family pension, supplementary relief from time to time.

3. Section 6 of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (45 of 1948), stipulates that a scheme framed under this Act may provide that any of its provisions shall come into force either prospectively or retrospectively with effect from such date as may be specified in this behalf in the Scheme.

4. It is also confirmed that nobody's interests will be adversely affected.

[No. 8(7)/80-Adm. I(PF)]

L. N. LADDHA, Jt. Secy.

